



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 193] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 12, 1976/आश्विन 20, 1898
No. 193] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 12, 1976/ASVINA 20, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 12th October 1976

SUBJECT.—*Procedure for making rupee deposits to Government account by means of demand draft in respect of import financed under the Direct Payment Procedure as applicable to various foreign loans/credits.*

No. 103-ITC(PN)/76.—Attention is invited to the Ministry of Commerce Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated the 31st May, 1974, prescribing the revised format of treasury challan to be used for making rupee deposits to Government account in respect of foreign loans/credits. Consequent to introduction of the departmentalised system of accounting for the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs with effect from 1st October, 1976, the rupee deposits made on or after 1st October, 1976 on account of imports financed under the direct payment procedure applicable to foreign loans/credits will be adjusted by the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs). Accordingly against the column "Accounts Officer by whom adjustable" (Column 13 of the revised format of challan) depositors should indicate "Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), United Commercial Bank Building, Parliament Street, New Delhi" in respect of deposits made by them on or after 1st October, 1976.

A. S. GILL,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 1976

विवरण .—विभिन्न विदेशी ऋणों/साखों के लिए लागू प्रत्यक्ष भुगतान क्रिया विधि के अन्तर्गत वित्तदान किए गए आयात के सम्बन्ध में डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से सरकारी लेखों में रुपया जमा करने के लिए क्रिया विधि ।

सं० 103—आई टी सी (पीएन)/76.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 74—आई टी सी (पी० एन)/74 दिनांक 31-5-74 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें विदेशी ऋणों/साखों के सम्बन्ध में सरकारी लेखों में रुपया जमा करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले खजाना चालान का परिशोधित प्रपत्र निर्धारित किया गया है । वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के लिए 1-10-76 से विभागीय लेखा योजना का आरम्भ हो जाने के परिणामस्वरूप विदेशी ऋणों/साखों के लिए लागू प्रत्यक्ष भुगतान क्रियाविधि के अन्तर्गत वित्तदान किए आयातों के मदों 1-10-76 को या इससे बाद में किए गए रुपया निक्षेप नियंत्रक, सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा, वित्त मंत्रालय (डी ई ए) द्वारा संचालित किए जाएंगे । तदनुसार “लेखा अधिकारी जिसके द्वारा समंजनीय है” (चालान के परिशोधित प्रपत्र का कालम 13) के सामने 1-10-76 को या इस से बाद में निक्षेपकर्त्ताओं द्वारा किए गए निक्षेपों के सम्बन्ध में निक्षेपकर्त्ताओं को “नियंत्रक, सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा, वित्त मंत्रालय (डी ई ए), यूनाईटेड कामर्शियल बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली” निर्दिष्ट करना चाहिए ।

ए० एस० गिल,

मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मूद्रित तथा
नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976